### **SURAJ INDUSTRIES LTD**

Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 CIN: L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org

Telephone No: 01970-256414

Date: 05.08.2021

To, The Executive Director BSE Limited Floor 25, P J Towers Dalal Street Mumbai-400001

**Scrip Code: 526211** 

Subject: <u>Intimation of the publication of Notice of Board Meeting scheduled to be held on August 12, 2021</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith the newspaper clipping regarding publication of Notice of Board Meeting of the company scheduled to be held on Thursday, August 12, 2021 published in the following newspaper:

- 1. Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

Thanking You, Yours Truly, Suraj Industries Ltd

fores.

Bhanumathy Ramachandran (Company Secretary)

Encl: As Above

12625600053904

Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

FINANCIAL EXPRESS

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK
Chandni Chowk Branch, 64, Katra Baryan, Your Perfect Banking Partner. Fatehpuri, Delhi-110006, Tel: 011-49847482 Regd. Office. Alwaye, Kerala NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

ollowing Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 20/08/2021 as shown below: Branch / Venue: Chandni Chowk Branch, 64, Katra Baryan, Fatehpuri, Delhi-110 Name A/c. No. Name A/c. No. 12626100030186 12626100030194 Mohd Farman inay Kumar Vaseem Ahmed Nausheen N 1262620000593 1262610003145 Mahendra Sharma 12626100031556 /ineet Kishore Mohini Gupta Chanchal Chauhan 12626100030228

### 12626200006045 Rai Kumar Golchha Place: DELHI Date: 05.08.2021 CIN: L51311DL1998PLC093690

## SHARIKA ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: S-550-551, School Block Part-2, Welcome Plaza, Shakarpur, Delhi-110092, Tel No: +91 120 2593900 Email: cs@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 13, 2021 at 04:00 p.m. to, consider and approve inter alia, theUnaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the guarter ended June 30, 2021.

This notice is available on the website of the Company (www.sharikaindia.com) and on the website of BSE(https://www.bseindia.com) and members may refer to the same for details. For Sharika Enterprises Limited

Place: Noida Kush Mishra Date: August 04, 2021

Company Secretary & Compliance Officer IHE FEDERAL BANK LID.

YOUR PERFECT BANKING PARTNER REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA B-465 Meera Bagh Paschim Vihar, New Delhi-110063 NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GULD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeate

notices, will be put for sale in the branch on or after 24.08.2021 as shown below:

RAJINDER KUMAR SOOD 15966100014153 SAGAR 15966100014724 PARMINDER SINGH AJIMAL 15966100014179 SAGAR 15966100014732 PAWAN KUMAR 15966100014229 SUNAINA PRASOON 15966100014740 15966100014187 YOGESH BHULAIPRASAD R SANDEEP KATYAL 15966100014260 MANOJ KUMAR 1596610001478 DASHRATH JAISWAL 15966100014807 **CHANDER MOHAN** 15966100014813 MEETU 15966100014914 PRADEEP KUMAR 1596610001489 DITTEN BAKSH SANDEEP KUMAR 1596610001488 15966100014500 RAJ KUMAR SHARMA PRITPAL SINGE ASHISH RAWAT NAVEEN KUMAR 15966100014567 JULIE SINGH 1596610001503 JYOTI 15966100014583 SOURAY GUPTA 1596610001505 PREM CHAND RO 1596610001510 JORAWAR SINGH 15966100014674 KAILASH DAS 15966100015127 AVINASH VOHRA 15966100014716 KARANJIT SINGI 15966100015150 15966100015143 Place: New Delhi. Branch Manager

# FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF **BINDAL POLYMERS PRIVATE LIMITED** RELEVANT PARTICULARS

Name of Corporate Debtor BINDAL POLYMERS PRIVATE LIMITED Date of incorporation of Corporate Debtor | 24/06/2010 Registrar of Companies, NCT of Delhi Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability U24100DL2010PTC204609 Identification No. of Corporate Debtor Read, Office: O-112, Bawana Industrial Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor Area, Sector-1, Delhi-110039 30.07.2021 (However, the Order dated 30.07.2021 Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal. New Delhi was received by the Interim Resolution Professional on 02.08,2021) 26.01.2022 (180 days commencing from 30.07.2021) Estimated date of closure of insolvency resolution process Name and Registration number of the Rajesh Kumar Parakh insolvency professional acting as Interim Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516 Resolution Professional 9. Address & email of the Interim resolution 5/51, 2nd Floor, W.E.A. Karol Bagh, New

3. Names of insolvency professionals identified NA. to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class) (a) Relevant forms and a) Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives b) Physical Copy of Relevant Forms are available at: 5/51, 2nd Floor, W.E.A, Karol Bagh, New Delhi. are available at: The Relevant Forms may also be obtained by sending a request vide email to: cirp.bindalpolymers@gmail.com

16.08.2021

ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Bindal Polymers Private Limited vide Order dated 30.07.2021. (Order dated 30.07.2021 was received by the Interim Resolution Professional on 02.08.2021). The creditors of Bindal Polymers Private Limited are hereby called upon to submit their claims with

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Date: 05.08.2021

Place: New Delhi Email: parakh.rajesh@gmail.com Ph.: 8851597975, 9811350848

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services

Ltd, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

the following Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the Demand Notices. The borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the following borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the mortgaged properties (hereinafter referred to as "Secured Assets") described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule

9 of the said Rules. The below mentioned borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned

the Tata Capital Financial Services Limited, for the amounts mentioned below along with nterest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of Demand Notices.

S. Loan Name of Obligor(s)/ Amount & Date of Account Legal Heir(s)/Legal Date of Demand Possession Representative(s) Nos. Notices 6051120 1. Gaurav Sharma, Flat No -366 Rs.63,14,258/-03-08-2021 Pocket DG-III, First Floor Category & 14.05.2021 Type of Possession

MIG, Vikas Puri, Delhi -110018

ALSO AT: 16 First Floor, School

	Pooja Gakhar, Flat No -366     Pocket DG-III, First Floor Category     MIG, Vikas Puri, Delhi -110018	SYMBOLIC
Admeas	tion of Secured Assets/Immovable Properties: F suring 65 Square Meters, In Pocket DG-III, On First Fl uri, New Delhi More Particularly Described In Gift De	oor, Category M.I.G, Situated A

(Symbolic/Physical)

In Faunt Of Gauray Sharms

2.	6092190 1. Sanjeev Kumar Jain 2. Monika Jain, Both R/o- House Number 125, Gali No.15, West Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051	2. Monika Jain, Both R/o- House Number 125, Gali		03-08-2021	
				Type of Possession (Symbolic/Physical)	
			SYMBOLIC		

Illaga Shahdara, Delhi-110051 As Per Sale Deed Dated 13.03.2013 In Favour Of Monika Jain. Bounded As: East:Road, West: Other's Property, North: Other's Property, South: O t h e r ' s Property

Bajaj, 2. Sudesh Bajaj, both r/o GB- 30, 1.10.25.300.24/-Type of Shivaji Enclave, Tagore Garden, Delhi-& 22.05.2021 Possession 110027 & 3. M/s Subhash Brothers, Symbolic/ Through Its Partner, 2606, Nai Sarak, Physical) SYMBOLIC

2622-2626, Measuring 125 Square Yards, Situated At Gali Battoomal, Roshanpura, Nai Sarak, Delhi-110006 More Particularly Described In Gift Deed Dated 04.10.2012, Executed In Favor Of Chander Bajaj. Bounded As: East : Street, West : Other's Property, North : Part Of Plot, South : Other's Property

indianexpress.com

(Amount in Rs. Lacs, if otherwise stated)

Unaudited

5,052.97

266.45

266.45

148.24

163.90

1,416.57

1.04

1.04

Year ended

31.03.2021

Audited

19,409.61

(1,479.84)

(1,479.84)

(1,182.04)

(1,138.01)

1,416.57

25,799.73

(8.35)

(8.35)

Date: 02.08.2021

Resolution Professional

Last date for submission of claims

Consolidated

Quarter ended

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020

Audited

4,945.05

(1,652.86)

(1,652.86)

(1,180.01)

(1,169.71)

1,416.57

(8.33)

(8.33)

Unaudited

5,258.88

348.36

348.36

277.49

296.66

1,416.57

1.96

# I choose substance over sensation.

**CL EDUCATE LIMITED** 

CIN: L74899HR1996PLC076897

Inform your opinion with credible journalism.

**Particulars** 

Net Profit / (Loss) for the period before tax (before

Net Profit / (Loss) for period before tax (after Exceptional

Net Profit / (Loss) for period after tax (after Exceptional

Total Comprehensive Income for the period [Comprising

Reserves (excluding Revaluation reserve) as shown in

Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other

Paid- up Equity Share Capital (Face value of

he Audited Balance Sheet of the previous year


Total Income from Operations (net)

Comprehensive Income (after tax)]

and/or Extraordinary item)\*

8/or Extraordinary items)

Exceptional and/or Extraordinary items)



Registered Office: Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Quarter ended

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020

Audited

2,957.16

(1,112.54)

(1,112.54)

(833.80)

(834.24)

1,416.57

Unaudited

3,129.57

282.32

282.32

258.68

59.49

1,416.57

Corporate Office: A-45, First Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate, New Delhi - 110044

Standalone

Unaudited

2,899.00

285.30

285.30

187.90

189.12

1,416.57

Tel: +91 (11) 4128 1100, Fax: +91 (11) 4128 1101, E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com

Year ended

31.03.2021

Audited

10,823.99

(625.35)

(625.35)

(512.80)

(509.58)

1,416.57

27,803.10

(3.62)

(3.62)

### SONI MEDICARE LIMITED Regd. office: 38, Kanota Bagh, J.L.N. Marg.

CIN: L51397RJ1988PLC004569 Phone No. 0141-5163700|2370947 Fax: 0141-2564392 E-Mail ID; cs@sonihospitals.com

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.

### NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015(Listing Regulations), Notice is hereby given that the meeting of the Board o Directors of the Company is scheduled to be neld on Saturday, 14th August, 2021 at 03.00 P.M at the registered office of the company inter alia, to consider, approve and take on record the unaudited Financial Results of the company for the Quarter ended June 30th, 2021 along with Auditors report

Further, the trading window for dealing in securities of company is already closed for all designated persons of the company and their immediate relatives from 1st July, 2021 and the same shall remain closed till 48 hours after the announcement of the financial results for the Quarter ended June 30th, 2021. This information is also available on the

website of the company at www.sonihospitals.com and website of BSE at www.bseindia.com S/d- Sweety Mamodia Place: Jaipur Date: 04/08/2021 Company Secretary

tenders vide single stage three part bidding process:

Tender-2 – Hiring of Housekeeping Services for GIGL

Tender-1 – Hiring of Security Services for GIGL

https://www.nprocure.com.

Details

Date of tender Upload on

Pre Bid Meeting (online)

Last Date to Submit online

Techno-Commercial Bid

Online BID opening Date

Members at a common venue.

Instructions for e-voting are as under: -

www.nprocure.com

Last Date to Submit

**Pre-Bid Queries** 

(Primary)

Portal ONLY.

60

#### SURAJ INDUSTRIES LTD CIN: L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; website-www.surajindustries.org Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh-173212 Corporate Office: F-32/3, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Contact No: 01970-256414

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of M/s Suraj Industries Ltd will be held on Thursday, August 12, 2021 at 04:00 PM at F-32/3, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021. For further information visit our Company's website i.e. www.surajindustries.org or stock exchange website i.e. www.bseindia.com

For Suraj Industries Ltd

Date & Time for

Tender-2

05/08/2021, 12:00 hrs

17/08/2021, 16:00 hrs

18/08/2021, 18:00 hrs

02/09/2021 before

02/09/2021, 14:05 hrs

14:00 hrs

Bhanumathy Ramachandran Place: New Delhi Date: 04.08.2021

GSPL India Gasnet Limited

CIN: U40200GJ2011SGC067449 Corp. Office: "GSPL Bhavan, Sector-26, Gandhinagar-382 028"

Tel: +91-79-23268500 Fax: +91-79-23268875 Website: www.gspcgroup.com

NOTICE INVITING TENDER

GSPL India Gasnet Limited (GIGL) invites bids through e-tendering for following

Entire bidding process including price bid will take place through (n) Procure

Tender Management Portal, Interested bidders can Bid and View the

Tender Documents, Bid qualification Criteria and Bidding Schedule on

Date & Time for

Tender-1

05/08/2021, 12:00 hrs

17/08/2021, 12:00 hrs

18/08/2021, 18:00 hrs

02/09/2021, 14:05 hrs

02/09/2021 before

All future announcement related to tenders shall be published on (n)Procure

GIGL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without

assigning any reason. GIGL also reserves the right to reject any or all of the bids

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020

Tel.: +91 11 4733 4100 • Fax: +91 11 2681 1676

NOTICE OF 36" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 36\* Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

the Sharda Motor Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, August 27,

2021 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means

In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide

General Circular Nos.10/2021, 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated June 23, 2021

April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively (collectively referred to as

"MCA Circulars"), and clarification circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued

by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities & Exchange

Board of India ("SEBI") vide. its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 & SEBI/

HO/ CFD/ CMD2/ CIR/ P/ 2021/ 11 dated May 12, 2020 & January 15, 2021, respectively

(collectively referred to as "SEBI Circulars") and such other applicable Regulation(s),

circular(s) or Notification(s), issued as per the MCA Circulars & SEBI Circulars has

permitted the holding the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of

The Company has sent the Notice of 36th AGM along with Annual Report 2020-21

comprising Financial Statements (standalone and Consolidated), Board's Report and

Auditors' Report for the financial year ended on March 31, 2021, on August 3, 2021, ONLY through electronic mode to those members, whose e-mail IDs were registered with the

Company / Depository Participant, in accordance to the MCA Circulars & SEBI Circulars.

Members can participate and attend in the AGM ONLY through VC/OAVM facility, the

details/ instructions for Joining the Meeting are provided under the Notes section of the

Notice of 36th AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted

The notice of 36th Annual General Meeting along with Annual Report 2020-21, is available

on the Company's website at https://www.shardamotor.com and also available on the

website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com, respectively.

(i) The company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on

for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Email: investorrelations@shardamotor.com • Website: www.shardamotor.com

received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.

("OAVM"), to transact such business(es) as set out in the 36" AGM Notice

14:00 hrs

Details can also be viewed on GIGL Website (http://gspcgroup.com/GIGL/)

(Company Secretary) Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)\*\* -

Rs. 10/- each)

No.

(5.89)Basic: 1.83 1.33 Diluted: 1.83 (5.89)1.33 \*Profit Before Tax (After Exceptional and/or Extra-ordinary Items) includes Profit before tax from Continued Operations and Equity Accounted Investees.

\*\*EPS from Continued & Discontinued operations includes simple arithmetic summation of EPS from Continued and Discontinued Operations.

3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the same are available on the website of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the Company at www.cleducate.com.

the Audit Committee, the above Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company, along with Limited Review Report (with unmodified opinion) of the Statutory Auditor thereon. For CL Educate Limited

4. The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 03, 2021, inter alia, has considered and approved, based on the recommendations of

Place: New Delhi Nikhil Mahajan **Executive Director and Group CEO Enterprise Business** Date: August 04, 2021

बेंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

# ROSARB, LUCKNOW

1<sup>st.</sup> Floor, V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Ph. 0522-6677636/6677681, Email: sarluc@bankofbaroda.co.in

# Sale Notice for Immovable Properties "APPENDIX-IV-A (See Proviso to Rule 6(2) & 8(6))

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be

Borrower/s/Guarantor/s/Secured Assets/s/Dues/Reserve Price/E-Auction date & time, EMD and Bid increase Amount are mentioned below:

# n⊢ <del>\*\*\*\*\*</del> VIJAYA

# Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of below mentioned account/s. The details of Date of Auction: 24.08.2021 Last Date of EMD Submission: 23.08.2021 upto 4.00 P.M.

	Date of Auction, 24-06-2021	Last Da	te of Livid Subilliss	1011. 23.0	O'TOTT OF		
SI.	Name & Address Of The Borrower/guarantors	Description of the Immovable Property with known encumbrances, if any	Total Dues	Date & Time of E- Auction	Reserve Price/EMD/ Bid Increase Amount	Status of Possession (Symbolic/ Physical)	Property Inspection Date & Time
1.		Owned by: Mr. Santosh Kumar Sharma S/o Mr. Ram Briksh and Mrs. Pinki Sharma W/o Mr. Santosh Kumar Sharma, Ward- Jankipuram, Lucknow, Mohalla, Sector - H, Jankipuram Yojana, House No. E-1/428, Area - 30.00 sq.mtr., Boundaries: East: H. No. 1/427, West: H. No. 1/429, North: 09 Mtr Wide Road, South: H.No. 1/449	Charman (Minimum	24.08.2021 02.00 PM to 06.00 PM	Rs. 16,47,000/- (RP) Rs. 1,64,700/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Symbolic	18.08.2021 between 10.00 AM to 04.00 PM
2.	Proprietor Mr. Naushad Alam S/o Late Abdul Shakoor, 3 River Bank Colony, Nabiullah Road, Lucknow - 226018 Proprietor: Mr. Naushad Alam S/o Late Abdul Shakoor, R/o 303, Grandeur Apartments, VI- Dalibagh, Lucknow - 226001 Guarantor: Mrs. Pramila Naushad	Equitable Mortgage of Property situated at Plot No. 2 part of Khasra No. 203/15, 203/16/1 part of 203/16/1 at Nabiullah Road, River Bank Colony, Ward-Wazirganj, Tehsil and District - Lucknow, Measuring 128.345 Sq. meter (1381 Sq. Feet) in the name of Naushad Alam S/o Late Abdul Shakoor, Bounded (as per sale deed): East: Plot of Irshad, West: Masjid, North: Property of Seller, South: 12 Ft. Wide Road	notice or possession notice)	24.08.2021 02.00 PM to 06.00 PM	Rs. 72,63,000/- (RP) Rs. 7,26,300/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Physical	18.08.2021 between 10.00 AM to 04.00 PM
3.	Late Mr. Ramai Lal Pushkar (Legal Heir of Late Mr. Ramai Lal Pushkar), E-1/341, Sector - H Jankipuram, Lucknow - 226021	Equitable Mortgage of Property consisting House No. EWS-1/341 situated at Sector-H, Jankipuram, Lucknow registered within Sub-Distt. Lucknow, Area:	Rs. 28,18,711.22/- + Intt. & Other Charges (Minus Amt. if any paid after the demand notice or	24.08.2021 02.00 PM to 06.00 PM	Rs. 17,80,000/- (RP) Rs. 1,78,000/- (EMD) Rs. 10,000/-	Symbolic	18.08.2021 between 10.00 AM to

30.00 Sq. Mtrs, Owner: Late Ramai Lal possession notice)

Pushkar (Demise on 06.02.2019)

Bounded (as per sale deed): East: 6

Mtr. wide road, West: House No. 1/354.

North: House No. 1/342, South: House

consisting House No. EWS-ES-1B/794

Phase-II, Sitapur Road Yojana

Lucknow 226021, Area: 36.75 Sq. Mtrs

Owner: Shri Vipin Kumar Trivedi and

Smt. Nirmala Trivedi, Boundaries:

East: House No. 773, West: 6 Mtr. wide

road, North: House No. 795, South:

EM of House No. 450/92 situated at

Mohalla - Muftigani, Ward - Daulatgani

Thakurganj, Lucknow, Area: 237.82 Sq.

Mtrs, Owner: Mukhtar Abbas S/o Mr.

Mujaffar Ali, Bounded by (As per sale

deed) : East: Road, West: Other

Property, North: House of Seller

in the Housing Loan account of Mr. Motilal

Ibrahimpur (Bijnaur) Shardanagar Nilmatha

Cantt Tehsil Sarojini Nagar, Distt. Lucknow

Gauda S/o Mr. Khali Gauda, Boundaries

East: Property of Thakur Anirudha Singh

West: Property of Khan Saheb, North: Part of

Gata No. 252 & 44, South: 08 Feet wide road

after that property of Suraj Lal

South: House of Manohar Lal

No. 1/340

House No. 793

Borrower: Shri Vipin Kumar Equitable Mortgage of Property

Borrower: M/s. MDS Sales, Khasra Extension of Equitable Mortgage (Property

No. 1120, Ahmamau, Amar Shaheed already mortagaged at our Niralanagar Branch

Vivekanand S/o Mr. Motilal Gauda, Gauda) of Immovable property House No. 594

R/o H.No. 594 Ka 554/1, Sharda Ka 554/1, (allotted by Nagar Nigam) situated

Nagar, Nilmatha Cantt (Tehsil over the plot at part of Khasra No. 252, Vill-

554/1, Sharda Nagar, Nilmatha Area: 300.185 Sq. Mtr., Owner: Mr. Motilal

Ramai Lal Pushkar (Legal Heir of Late Mr.

Ramai Lal Pushkar) through Mrs. Sangita

Pushkar (Mother and Natural Guardian), E-

1/341, Sector-H. Jankipuram, Lucknow

Trivedi and Smt. Nirmala Trivedi,

Address-EWS-ES-1B/794 Phase-II,

Sitapur Road Yojana, Lucknow

Borrower: M/s, Talat Zari Art,

Prop. Wagar Abbas S/o Mr.

Mukhtar Abbas, Add. 450/92,

Muftiganj, Near Abid Building,

Guarantor: Mukhtar Abbas S/o

Mr. Mujaffar Ali, R/o 450/92.

Muftiganj, Near Abid Building,

Path, Opposite to Best Price,

Arjunganj, Lucknow. Prop. Mr.

Guarantor : Mr. Motilal Gauda S/o

Mr. Khali Gauda, R/o H.No. 594 Ka

Cantt (Tehsil Sarojini Nagar) Distt.

Sarojini Nagar) Distt. Lucknow.

226021

226021

Lucknow.

Lucknow.

Lucknow.

7565008656, 7565008653

resolution proposed to be passed at the 36" AGM by electronic means (remote e-voting / e-voting at the 36th AGM). The company has engaged the services of central Ramai Lal Pushkar (Legal Heir of Late Mr. Depository Services (India) Limited as the agency for providing the remote e-voting / Ramai Lal Pushkar) through Mrs. Sangita e-voting at the 36" AGM facility to cast their votes on all resolutions as set out in the Pushkar (Mother and Natural Guardian), E-Notice of 36" AGM. The Detailed procedure to cast vote through remote e-voting e-voting are provided in the Notice of 36\* AGM. The Members are requested to read 1/341. Sector-H. Jankipuram, Lucknow the instructions carefully: 226021 (ii) The remote e-voting period shall commence on Tuesday, August 24, 2021 (09:00 (3) Ms. Princy Pushkar D/o Late M a.m. IST) and ends on Thursday, August 26, 2021 (05:00 p.m. IST). The remote

e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed; (iii) A person, whose name appears/recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, August 20, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at

sending of the notice of 36" AGM and holding shares as on cut-off date (for e-voting) i.e. Friday, August 20, 2021 may obtain their user id and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice; (v) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 36\* AGM, may

(iv) Any person, who has acquired shares and becomes the member of the Company after

also attend/ participate in 36th AGM through VC/OAVM, but shall not be entitle to cast (vi) The Members present in the 36th AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred

from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the 36\* AGM. The Board of Directors has appointed Vineet K Chaudhary, Managing Partner (Membership) No. FCS 5327) and failing of him Shri Mohit K Dixit, Partner, (Membership No. A 49021), of M/s VKC Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer ("Scrutinizer") to scrutinize the voting process (remote e-voting/e-voting) in a fair and transparent manner. The Register of Member and Share transfer Book of the Company Shall remain closed form Saturday August 21, 2021 to Friday, August 27, 2021 (both day inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of Members for the payment of final dividend for the Financial Year 2020-21, if declared at the Meeting. The final dividend; once approved by the Shareholders in the ensuing AGM will be paid electronically through online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For those shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent out to their registered addresses, however this shall be subject to the availability of postal services across the country

Pursuant to the Income tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2021, dividend paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020, shall be taxable at the hands of the shareholders. The Company shall, therefore be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the dividend, wherever applicable, at prescribed rates, including applicable surcharge and cess. To enable the Company to determine the appropriate TDS. withholding tax rate applicability, shareholders are requested to upload the requisite documents with the M/s. Alankit Assignments Limited, Registrar & Share Transfer Agent at

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Members may also write to the Company at the aforementioned address or email at investorrelations@shardamotor.com.

For Sharda Motor Industries Limited Date: 04.08.2021

Place: New Delhi

financialexp.epap.in

Executive Director & Company Secretary

Date: 05.08.2021 Place: Lucknow 

Rs. 14,09,868/-

+ Intt. & Other

Charges (Minus

Amt, if any paid

after the demand

notice or

possession notice)

Rs. 15,50,127/-

+ Intt. & Other

Charges (Minus

Amt. if any paid

after the demand

notice or

possession notice)

Rs. 25,73,426/-

+ Intt. & Other

Charges (Minus

Amt, if any paid

after the demand

notice or possession notice) Amount)

Rs. 10,000/-(Bid Increase

10.00 AM (EMD) 04.00 PM

Rs.36,53,100/-18.08.2021 (RP) between

04.00 PM

18.08.2021

between

10.00 AM

to

04.00 PM

18.08.2021

between

10.00 AM

to

04.00 PM

(Bid Increase

Amount)

Rs.12,44,000/-

(RP)

Rs. 1,24,400/-

(EMD)

Rs. 10,000/-

(Bid Increase

Amount)

Rs.38,82,000/-

(RP)

Rs. 3,88,200/-

(EMD)

Rs. 10,000/-

(Bid Increase

Amount)

Symbolic

24.08.2021

02.00 PM

to 06.00

24.08.2021

02.00 PM

to 06.00

24.08.2021

02.00 PM

to 06.00

Rs. 3,65,310/-

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda secured website i.e. www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in. Also, prospective bidders may contact the authorised officer on Mobile No.

Authorised Officer, Bank of Baroda

Chandigarh

The Federal Bank Ltd.

professional, as registered with the board Delhi-110005 Email: parakh.rajesh@gmail.com Address and e-mail to be used for C-108, 3rd Floor, Sector-2, Noida-201301, UP Email: cirp.bindalpolymers@gmail.com correspondence with the Interim

of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional

proof on or before 16.08.2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against

Rajesh Kumar Parakh Interim Resolution Professional of Bindal Polymers Private Limited Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED TATA Regd. Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the said Act") and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, has issued Demand Notices under the said Act, calling upon

Lane Bengali Market, Delhi-110001,

04.08.2021 3. 21189967 1. Chander Prakash Bajaj alias Chander

Date: 05-08-2021 Place: NEW DELHI

Classes of creditors, if any, under clause (b) NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench at New Delhi has

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

not to deal with the secured assets and any dealings thereto shall be subject to the charge of

Description of Secured Assets/Immovable Properties: Property No.125 (part), Plot Bearing No.5, Area Measuring 45 Sq Yards, Out Of Khasra No.174, 175, Mustatil No. 572/177, Situated At Abadi Of Gali No.15, West Azad Nagar, In The Area Of Village Ghondli,

Description of Secured Assets/Immovable Properties: Built Up Property Bearing Number

Authorised officer, Tata Capital Financial Services Ltd

CIN: L74899DL1994PLC057507 सूचना सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 व 47 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार, अनुमोदन और रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक शनिवार, 14 अगस्त,

2021 को पूर्वाह्न 10:30 बजे इसके पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जाएगी। सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कते बिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 04.08.2021

आशीष कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

कम्पनी सेक्रेटरी



## शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएन : L24222HR1902PLC065611 पंजीकृत कार्यालय : स्टेनलेस सेंटर, बतुर्ध तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुरुग्राम, (हरियाणा)-122001 वेक्साइट : www.shalimarpaints.com ई-मेल : askus@shalimarpaints.com

एतदहारा सचीत किया जाता है कि भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि शालीमार पेंट्स लिमिटेंब ("कम्पनी") के निदेशक मंबल की बैठक शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य विषयों के साथ, 30 जून, 2021 को समाप्त पहली तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और

इस सुवना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट नामत: www.shalimarpaints.com तथा स्टॉक एक्सवेन्जेज की वेबसाइट्स नामतः बीएसई (<u>www.bseindia.com</u>) और एनएसई (<u>www.nseindia.com</u>) की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं। वास्ते शालीमार पेंट्स लिमिटेड

तिथि : 05 अगस्त, 2021



स्थान : गुरुग्राम

### अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पंजीकृत कार्यालय : ए-223, ओखला आद्योगिक क्षेत्र, फेस-1 नई दिल्ली-110020 शिआईएनः U74899DL1978NPL008877 टेलीफेक्स : 011–40501798। ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com सुचना

श्री वी, ईलनगोवन, मैसर्स एस,एन.क्य, एस.

2. श्री. राजीव एस. गोयनका, मैसर्स गो गो

इंटरनेशनलस प्राइवेट लिमिटेड।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (2) के अनुसरण में सूचना यह सुचना दी जाती है कि शनिवार 14 अगस्त, 2021 को प्रातः 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो मध्यमों के मध्यम से आयोजित की जाने वाली कौंसिल की 42वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में कौंसिल की कार्यकारी समिति हेत् चुनाव लड़ने के लिए निम्न नामांकन प्राप्त हुए हैं :-

. श्री राजेंद्रा बी. गोयनका, मैसर्स टेक्सपोर्ट सिंडिकेट . श्री अशोक जी. रजानी, मैसर्स क्रिएटिव लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड।

इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड श्री. दिलीप बी. त्रिवेदी, मैसर्स द कॉटन एंड टेक्सटाइल श्री पी बालासब्रमण्यन, मेसर्स मनी अपैरल्स। कॉपरिशन। 1. श्री. वीरेंद्र उप्पल, मैसर्स ऋचा ग्लोबल एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। 2. श्री. हरीश आहजा, मैसर्स शाही एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड।

 श्री. लितत गुलाटी, मेसर्स मॉडलामा एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उपरोक्त सची में कार्यकारी समिति के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं, जो रोटेशन से सेवानिवत्त हो रहे हैं और

काँसिल की कार्यकारी समिति के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन प्रस्तुत किया है। कृते अपरल एक्सपोट प्रोमोशन कार्जासल

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 04/08/2021

आईडीबीआई बेंक लिमिटेड (एनपीए प्रबंधन ग्रुप-मुम्बई), आईडीबीआई टॉवर, 7वीं मंजिल, डब्ल्यटीसी कॉम्पलेक्स, (T) IDBI BANK कफे परेड, मुम्बई-400 005 कर्जदार : लैन्कोइन्फ्राटेक लिमिटेड (एलआईटीएल) लैंको हाउस, प्लॉट नं. 397, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम-122 016

एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र द्वारा प्रावधानित के अनुसार जानबुझकर चककर्ता की पहचान के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चकी है और आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी कारण बताओ सचना

रिटर्न/अनसर्व्ड कर दी गयीं। नाम तथा पता पद (निदेशक का) इरादतन चूककर्ता का मानदण्ड

श्री लगादापती मधुसूदन राव बी-11, पुष्पांजिल फार्म, बृजवासन, नई दिल्ली-110061	पूर्णकालिक निदेशक तथा व्यक्तिगत जमानती	सुगतान का क्षमता हान के बावजूद पुनमुगतान दायित्व में चूक।     तिधियों का डाइवर्जन     ते कर्ज लिये गये धन को उस उद्देश्य में नहीं प्रयुक्त करके अन्य उद्देश्यों/गतिविधियों या आस्तियों के सृजन में उपयोग किया।     तर्ज लिए धन को अनुषंगियों/समूह कम्पनियों या किसी भी प्रकार की मॉडैलिटी द्वारा अन्य कॉपोरेंट में हस्तान्तरित किया।     तिधियों की साइफिनंग।     तिचियों की साइफिनंग।     तिचियों की साइफिनंग।
श्री जी. भास्कर राव गरलापती, प्लॉट सं. 150, रोड सं. 10, जुबिली हिल्स, हैदराबाद 500033	निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक	उपर्युक्त के अनुसार
श्री प्रथिपति अब्राहम, डी-71, निवेदिताकुंज, सेक्टर 10, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, भारत-110022	निदेशक	उपर्युक्त के अनुसार

निदेशक

निदेशक

उपर्युक्त के अनुसार

उपर्युक्त के अनुसार

श्री कृष्णमृतिं रामानाथन, प्लॉट निदेशक उपर्युक्त के अनुसार नं. 13, सेक्टर-6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 201010 श्री क्रोत्थापल्ली राजा गोपाल, निदेशक उपर्युक्त के अनुसार फ्लैट नं. 401, स्नेहनिलयम अपार्टमेंट्स, डोर नं. 2-2-3/बी/3/1, सामने यूनिकेयर

सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश, भारत उपर्युक्त व्यक्ति, यदि वे चाहें, तो इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बता सकते हैं कि उन्हें भा.रि.बैं. के पास जानबूझकर चककर्ता के रूप में क्यों न घोषित तथा रिपोर्ट किया जाए।

आपका विश्वासपात्र (संदीप दास) तिथि : 4 अगस्त, 2021 (उप महाप्रबन्धक)



श्री दरियल लाल रावल अनुराघा

नं. 1363, 9वां क्रॉस, जे.पी. नगर

। फेज, बेंगलुरू, कर्नाटक, भारत

श्री जसकिरन अरोड़ा, म.नं.

603/आर-टी, ओमेक्स नाइल

टॉवर्स, सेक्टर-49, गुरुग्राम,

हॉस्पिटल, डी.डी. कॉलोनी,

हरियाणा, भारत 122101.

560076

#### पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (''पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट 37'' के ट्रस्टी के रूप में) 55-56. 5वाँ तल. फ्री प्रेस हाउस. नरीमन प्वाइन्ट. मम्बई-400021 टेली: 91-226188470, फैक्स: 91-22-22846797

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 11.11.2019 जारी कर ऋणधारक/गारन्टर अर्थात् मै. डिवाइन इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री अर्जुन यादव, पुत्र श्री राम चन्द्र यादव, श्रीमती गोडी देवी यादव, पुत्री श्री राम कुमार यादव तथा श्री राम चन्द्र यादव, पुत्र श्री लाल राम यादव को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 22.3.2019 को र. 1,36,60,024/- (रु. एक करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार चौबीस मात्र) के साथ 23.3.2019 से उस पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोलिखित प्रतिभृति हित के साथ उक्त ऋणधारकों की देयताओं को सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अतंर्गत एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 29.3.2019 के माध्यम से इंडसइंड बैंक लि. द्वारा पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट 37 (पेगासस) के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. को सौंप दिया गया।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 2 अगस्त, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 22.3.2019 को रु. 1,36,60,024/- (रु. एक करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार चौबीस मात्र) के साथ 23.3.2019 से उस पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे के लिये पेगासस के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

श्री राम चन्द्र यादव के स्वामित्व में प्लॉट नं. 01, राजीव नगर स्कीम, महादेव नगर, गृह निर्माण सहकार्र सिमिति, नया खेरा, अम्बावारी के पीछे, जयपुर, माप 300 वर्ग यार्ड्स में स्थित अचल आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः प्लॉट नं. 2, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 12, दक्षिणः रोड

सम्पत्ति का विवरण

प्राधिकृत अधिकारी पेगासस एसेट्स रीकन्स्टक्शन प्रा.लि. स्थानः जयपुर तिथि: 2.8.2021 (''पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-37'' के ट्रस्टी)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

### Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004 No.: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-I/2021-22/D-69 Date: 03.08.2021

NOTICE INVITING BID NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-1/34/2021-22

Bids are invited for works given below in various zones as per details given :-

Cost of Work A&F UBN No. Nature of Work **Last Date** (Lacs) No. 173/2016-2017 | EE-V, Widening & Strengthening | 26.08.2021 1. UBN: JDA2122WSOB00223 283.07

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-I Raj. Samwad/C/2021-22/4294

SHARIKA ENTERPRISES LIMITED 3 CIN: L51311DL1998PLC093690 Regd. Office: S-550-551, School Block Part-2, Welcome Plaza, Shakarpur, Delhi-110092, Tel No: +91 120 2593900 Email: cs@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 13, 2021 at 04:00 p.m. to, consider and approve, inter alia, theUnaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter

ended June 30, 2021 This notice is available on the website of the Company (www.sharikaindia.com)

and on the website of BSE(https://www.bseindia.com) and members may refer to he same for details. For Sharika Enterprises Limited

Kush Mishra

Place: Noida Date: August 04, 2021 Company Secretary & Compliance Officer

> प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

बिंदल पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण कार्पोरेट देनदार का नाम बिंदल पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड 24 जून 2010 कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्टार ऑफ कम्पनीज-एनसीटी ऑफदिल्ली देनदार निगमित / पंजीकृत है कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U24100DL2010PTC204609 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या

कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय तथा पंजीकत कार्यालय: ओ-112, बवाना इंडस्ट्रियल, प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता सैक्टर-1, दिल्ली-110039 कार्परिट देनदार के संबंध में ऋण शोध 30 जुलाई 2021 (हालांकि, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानन न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश अक्षमता आरंभन तिथि हारा 02 अगरत 2021 को प्राप्त किया गया था)

दिनांक 30 जुलाई 2021 का अंतरिम समाधान पेशेवर ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 26 जनवरी 2022 (दिवाला प्रक्रिया समापन की पूर्वानुमानित तिथि दिनांक 30 जुलाई 2021 से 180वां दिन ) अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में राजेश कुमार पारख कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और 5 / 51, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई.ए. करोल बाग, नई ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है

दिल्ली-11005 ईमेल: parakh.rajesh@gmail.com अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का. सी—108. तीसरी मॉजिल, सैक्टर—2, नोएडा—201301, यूपी पत्राचार हेत् प्रयुक्त, पता और ई—मेल ईमेलः cirp.bindalpolymers@gmail.com दावा प्रस्तृत करने हेत् अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 अंतरिम समाधानप्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की लागु नहीं 4 उप–धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेत

चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल

के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

14. (क) संबंधित प्रयन्न और

(ख) अधिकत प्रतिनिधियों का विवरण पर (ख) प्रासंगिक प्रपत्रों की भौतिक प्रति यहां उपलब्ध है:5/51, दूसरी मंजिल, डब्ल्यु.ई.ए. करोल बाग, उपलब्ध है: नई दिल्ली-11005 प्रासंगिक प्रपत्र cirp.bindalpolymers@gmail.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेजकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं तदहारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने **दिनांक 30 जुलाई 2021,** को बिंदल पौलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है । (आदेश दिनांक 30 जुलाई 2021 का अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा 02 अगस्त 2021 को प्राप्त हुआ था) बिंदल पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड कें) लेनदारों से एलदहारा अपने दावों का प्रमाण 16 अगस्त 2021 को अथवा इसके

क) वेबलिकः https://ibbi.gov.in/home/downloads

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू) II

एच-ब्लॉक, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110089,

फोन: 27851040 (ईमेल: eenw2.dib@gmail.com)

''कोरोना रोकें: मास्क पहनें, शारीरिक दरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें"

प्रेस एनआईटी सं. 14 (2021-22) प्रैस निविदा सूचना

राशि/निविदा

8491483/-

Thyrocare

The Trust. The Truth.

Name of the Target Company (TC)

Details of the Offer pertaining to TC

1000/-

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तृति दंडनीय होगी। राजेश कुमार पारख अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, बिंदल पॉलिमर्स प्राइवेंट लिमिटेड दिनांक : 05.08.2021 पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516 स्थान : नई दिल्ली ईमेल :parakh.rajesh@gmail.com फोन : 8851597975,9811350848

पूर्व में अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है ।

श्यने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं ।

ईई (एनडब्ल्यू)-II के अंतर्गत एसी-07, बवाना में कंझावला रोड से ए

द्वारा जलापूर्ति का सुधार।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2021-22/247

पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ए-30, एस-11, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी

नई दिल्ली-110048, वेबसाईट: www.pgil.com

ई-मेलः pgindustryltd@gmail.com

CIN: L74899DL1993PLC056421

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन

2015 के विनियमन 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियम

29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पर्न

के निदेशक मंडल की बैठक नं. 03/ 2021-22, शुक्रवार, 1

अगस्त, 2021 को 3.30 अप. में कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय में आयोजित होगी जिसमें अधोलिखित पर विचान

तथा अनुमोदन किये जाऐंगेः 1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त

तिमाही तथा वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम 2) 30

जुन, 2021 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट वे

लिए आचार संहिता तथा अप्रकाशित मृल्य संवेदनशील

जानकारी के सही उद्घाटन के प्रैक्टिसेस तथा प्रक्रिया संहिता

के प्रावधानों के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो बंद कर दी गई है तथ

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए स्टॉक एक्सचैंज में बोर्ड बैठक के

यह सुचना स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात्

www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट पर भी

एवन मर्केंटाइल लिमिटेड

सीआईएन : L17118UP1985PLC026582

पंजीकृत कार्यालय : एस ग्लोबल नॉलेज पार्क

19ए एवं 19बी, सेक्टर-125,

नोएडा, उ.प्र.-201 301

वेबसाइट: www.avonmercantile.in

भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व

एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम

29 के साथ पठित विनियम 47(1)(ए) के सन्दर्भ

में, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जून, 2021 को

समाप्त तिमाही के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा

वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं समय सुनिश्चित

करने और सदस्यों के लिए इसकी सूचना निर्गत करने

पर विचार करने के साथ-साथ रिकार्ड करने के लिए

कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शक्रवार. 13

अगस्त, 2021 को 4.45 बजे अप. को कांफ्रेंस

रूम (अपर बेसमेंट), स्मार्ट भारत मॉल, आई-2,

सेक्टर-25ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश पर आयोजित की

बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात कम्पनी के

लेखापरीक्षित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट

http://www.avonmercantile.in/ तथा स्टॉक

एक्सचेंजों की वेबसाइट https://www.bsein-

dia.com/ तथा https://www.cse-

कृते एवन मर्केंटाइल लिमिटेड

एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता सं. : ए४२९४४

दिशा सोनी

कम्पनी सचिव

india.com/ पर उपलब्ध होंगे।

तिथि : 04.08.2021

स्थान : नोएडा

पीजी इंडस्टी लिमिटेड के लिए

साकेत डालमिया

प्रबंध निदेशक

(DIN-00083638)

परिणाम को जमा करने के 48 घंटे बाद फिर से खुलेगी।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 4.8.2021

ब्लॉक, कृष्णा विहार तक 350/300/250/200/150 एमएम डाया वाटर लाइन

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

क्तिय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार

Kohinoor Foods Ltd. Read / Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor,

Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001 Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th August, 2021 at the Registered Office of the Company situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor Surajkund, Shooting Range Road, Faridabad, Haryana – 121001 to inter-alia consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 30<sup>st</sup> June, 2021 and any other matter as may be considered appropriate by the Board. By Order of the Board of Directors For Kohinoor Foods Ltd.

Sdl Date: 04th August, 2021 Deepak Kaushal Place: Faridabad Company Secretary & Manager (Legal)

सावजानक उद्घाषणा

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (पारसमापन प्राक्रया) विानयमन, 2016 के विानयमन 12(3) के साथ पठित विनियमन 31(2) के अनुपालन में

ट ब्रदर्स बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड- परिसमापन में, के मामले में। एतदृद्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि टू ब्रदर्स बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन

के अधीन) के मामले में परिसमापक के रूप में कार्यरत अधोहस्ताक्षरी ने भारत दिवाला तथ दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12(3) के साथ पठित विनियमन 31(2) के प्रावधानों के अनुपालन में 2.8.2021 को स्टेकधारकों की सूची माननीय न्यायकर्ता प्राधिकरण, नई दिल्ली पीठ के पास दाखिल कर दिया है।

स्टेकधारकों की सम्पूर्ण सूची के लिये कृपया tbbpl.liquidation@gmail.com पर हमसे सम्पर्क

स्टेकधारकों को पुनः सुचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ में दाखिल स्टेकधारक की सूची की प्रविष्टि में कोई भी संशोधन परिसमापक द्वारा पीठ द्वारा निर्देशित प्रक्रिया में माननीय एनसीएलटी के पास आवेदन दाखिल करने के बाद ही की जा सकती है। तिथि: 4.8.2021 हस्ता./

टू ब्रदर्स बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक पंजी. सं.: IBBI/IP-02/IP-00652/2018-19/12020 पंजीकृत पता: 172, प्लॉट नं. 7-सी, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-110077 प्रक्रिया विशिष्ट ईमेलः tbbpl.liquidation@gmail.com Voice: +91-9871110861

रेत विकास निनम तिमिरेड Rall Vikas Nigam Limited.

स्थानः नई दिल्ली

पंजीकत कार्यालयः प्रथम तल. अगस्त ऋति भवन, भीकाजी कामा प्लेस. आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली- 110066 सीआईएनः L74999DL2003GOI118633, ईमेलः investors@rvnl.org फोन नं .: 011-28738299, फैक्स: 011-28182957 3 **2 5 1** 

विजय कुमार

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) के विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियमन" कें विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29, 33 के अनुसरण में, एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी के निवेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 12 अगरत, 2021 को, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) पर विचार करने, अनुमोदन करने, तथा उसे। रिकॉर्ड पर लेने की कार्रवाई की जाएगी।

'पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा प्रतिवेदन के लिए आरवीएनएल आचार संहिता' के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि 01 जुलाई, 2021 से आरंभ हो चुकी है तथा 12 अगस्त, 2021 को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट

www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कृते रेल विकास निगम लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली हस्ता. दीपिका मेहता

दिनांक : 04.08.2021

ई-प्रापण सॉल्यूशन के | ई-प्रापण सॉल्यूशन के

माध्यम से निविदा जारी | माध्यम से निविदा प्राप्ति

की अंतिम तिथि/समय

18.8.2021 के 300

बजे अप. तक।

(सुधीर कुमार)

कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू) I

की तिथि/आई.डी.नं.

3.8.2021

2021\_DJB\_206539\_

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.

### 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi-110025 NOTICE

to clause 29 of the SEBI (LODR). Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 13th day of August, 2021 at the Registered Office of the Company, inter-alia, to approve and take on record the un-audited financial results for the quarter ended on 30th June, 2021.

NOTICE is hereby given that pursuant

By order of the Board

For National General Industries Ltd. Vandana Gupta Place: New Delhi. Company Secretary

Regd. office: D-37/1, TTC Industrial Area, MIDC Turbhe, Navi Mumbai, Maharashtra – 400703

Docon Technologies Private Limited ("Acquirer") is a software company in Bengaluru, engaged

business experience. Hence, no Independent Advisors were engaged for this purpose.

दि फेडरल बैंक लि. चाँदनी चीक शाखा, 64, कटरा बरयान

फतेंहपुरी, दिल्ली-110006. फोनः 011-49847482 पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

सोने की निजी बिक्री के लिए सुबना सभी सम्बन्धितों की जानकारी हेतु एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखा में स्वर्ण ऋण खातों में निम्मलिखित स्वर्ण आभूषण गिरवी रखे गए थे, जो छूडवाने के लिए अतिदेश हो चुके हैं और बार-बार सूचना देने पर नियमित नहीं किए गए हैं, अतः निम्नलिखित दर्शांचे अनुसार 20.08.2021 को चा उसके उपरान्त शाखा द्वारा विकी हेतू रखे जाएंगे

शाखा / स्थानः चाँदनी चौक शाखा, 64, कटरा वरयान फतेहपुरी, दिल्ली-110006. फोनः 011-49847482 A/c. No. Name A/c. No. Name मोहम्मद फ्रमान 12626100030186 12626200005922 विन्य कुमार नाशीन एन 12626100030194 वसीम अहमद 12626100030152 12626200005930 महेन्द्र शर्मा 12626100031556 मञ् विनीत किशोर मोहिनी गुप्ता 12626100030228 12626100031457 चंचल चौडान राज कुमार गोलछा 12626200006045 12625600053904 स्थानः दिल्ली शाखा प्रबंधक, (दि फेटरल बैंक लि.) विनांक: 05.08.2021

फेडरल बैंक लिमिटेड, शाखा प्रयागराज 23, एन पी ए आर्केंड, एम जी मार्ग, प्रयागराज-211001

<u>FEDERAL BANK</u> YOUR PERFECT BANKING PARTNER REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA

सोने की निजी बिक्री के लिए सूचना एतदद्वारा समस्त संबंधित जन की जानकारी हेतू सूचना दी जाती निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खाते में बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषण, जो विमोचन के लिए अतिदेय है तथा बार-बार सूचनाओं के बावजूद नियमित नहीं किये गए है, शाखा में दिनांक 24.08.2021 को बिक्री हेतू रखे जाएंगे।

प्रयागराज शाखा 23, एन पी ए आर्केड, एम जी मार्ग, प्रयागराज–211001 13926200003524 13926200003615 मोहम्मद सलीम <del>13926100019521</del> 13926100019232 13926100018911 अशोक कुमार सिंह 13926100019307| संतोष कुमार ओझ 13926100018556 3926200003581 13926100019604 रांतीष कूमार ओझा 13926100019570 अशोक कुमार सिंह 13926100020107 13926100016774 अशोक कुमार सिंह 13926100019877 अशोक कुमार सिंह 13926200003623 अशोक कमार सिंह 13926400000700 संतोष कुमार ओझा 13926100020222 अशोक कुमार सिंह 13926100017616 मोहम्मद सलीग शाखा प्रबंधक. स्थान: प्रयागराज दिनांक: 04.08.2021 फेडरल बैंक लिमिटेड

The Federal Bank Ltd. C-2, Sector-15, Vasundhara, Ghaziabad, U.P.-201012

FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner Regd. Office. Alwaye, Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put

for sale in the branch on or after 20/08/2021 as shown below: Branch / Venue: C-2, Sector-15, Vasundhara, Ghaziabad, U.P.-201012 Name A/c. No. Name A/c. No. Megha Tandon 21516100005719 Reena Tyagi 21516100005800 21516100005891 Megha Tandon 21516100009562 Munni Devi Bhanu Pratap Singh 21516100006022 21516100007491 Rajiv Singh 21516100006584 Poonam Bansal 21516100006030 Vishal Rajput Manoj 21516100005867 21516100008549 Vishal Rajput 21516100005883 Neeraj Yadav 21516100005990 Vishal Rajput Pranshu Mishra 21516100007517 Vishal Raiput 21516100006873 Place: Ghaziabad, U.P. Date: 05.08,2021 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK
Ground Floor Express Green Plaza, Vaishali
Your Perfect Banking Partner Sector-1, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010 Regd. Office. Alwaye, Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue tion and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be pu for sale in the branch on or after 24/08/2021 as shown below: NAME & ACCOUNT NUMBER BRANCH / VENUE Arun Kumar Pandey 21506100005199 Ground Floor Express Green Rajesh Prasad Shrivastva 21506100005272 Plaza, Vaishali Sector-1,

21506100005264 Meenakshi Sharma Ghaziabad. 21506200001122 4. Anjana Thakur Uttar Pradesh-201010 Yogendra Kumar 21506100005397 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.) Place: Vaishali, Ghaziabad Date: 05.08.2021

> PMC FINCORP LIMITED Corporate Office: 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060

Regd. Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, U.P. - 244901 Email ID: pritimercantile@gmail.com; website: www.pmcfinance.in; Tel: 011-42436846, CIN: L27109UP1985PLC006998 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations

2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 13" August, 2021 at 4:30 P.M. at the Corporate Office of the Company, at 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, inter-alia to consider and take on record the company's Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 and any other relevant matter. For PMC Fincorp Limited

Ms. Chetna Sajwan

Place: New Delhi

29/18, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली-

110026 ने 03.10.2008 को निगमित पार्टनरशिए

फर्म ''मैसर्स पिनैकल एन्टरप्राइजेज'' के वर्तमान

में इसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, पवित्र

हाउस, 4 एवं 5-शहजादा बाग एक्सटेंशन, नः

दिल्ली-110035 पर तथा इसके पत्राचार का पत

402, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर-I, नेताजी सुभाष

प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 पर है, वे

पार्टनर के कार्यालय से जुलाई, 2011 से त्यागपः

सार्वजनिक सुचना THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि मैं आनन्द दुग्गल पुत्र श्री. एस.के. दुग्गल निवासी

Company Secretary/Compliance Officer

Tel: 022-27622762 | Website: www.thyrocare.com Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Thyrocare Technologies Limited ("Target Company") on the Open Offer made by Docon

Date: 04.08.2021

Technologies Private Limited ("Acquirer") along with API Holdings Private Limited in its capacity as Person Acting in Concert with the Acquirer ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") 1. Date 03-08-2021

Thyrocare Technologies Limited

Corporate Identity Number (CIN): L85110MH2000PLC123882

		in digitizing healthcare eco system. API Holdings Private Limited, Bengaluru, ("PAC") is owning the country's largest digital healthcare platforms. The Acquirer and PAC have entered into a Share Purchase Agreement with the Promoters and Promoter group shareholders of Thyrocare Technologies Limited (Target Company/TC) on 25th June 2021 for acquiring 3,49,72,999 equity shares (66.11% of the expanded voting share capital of TC) for a consideration of Rs.1300/-per equity share, subject to satisfaction of conditions precedent and subject to compliance with applicable regulations. Since this is in excess of 25% of the equity share capital of the Target Company and the Acquirer will acquire control over the Target Company, the Acquirer, along with PAC, is making an open offer to acquire 1,37,55,077 equity shares from the Public Shareholders at the same price, pursuant to the provisions of Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.		
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Docon Technologies Private Limited is the Acquirer. API Holdings Private Limited is the PAC with the Acquirer		
5.	Name of the Manager to the offer	J.M. Financial Limited, 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025		
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Mr. Gopalkrishna Shivram Hegde, Chairman of the Committee of Independent Directors.		
		2. Mr. Vishwas Kulkarni, Independent Director & Member of the IDC		
		3. Dr. Neetin Desai, Independent Director & Member of the IDC		
		4. Dr. Indumati Gopinathan, Independent Director & Member of the IDC		
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the members of the Independent Directors Committee is related to Target Company except as Independent Director. None of them is holding any equity shares, or having any contractual or other relationship with the TC		
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the Independent Directors Committee has carried out any trading in the Equity Shares / other securities of the Target Company		
0	IDC Member's relationship with the acquires (Director Equity)	None of the Independent Directors game any charge in the Acquirer Company per has any		

IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity | None of the Independent Directors owns any shares in the Acquirer Company nor has any shares owned, any other contract / relationship), if any. other contract / relationship with the Acquirer. None of the Independent Directors has traded in the Equity Shares / other securities of the Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members 11. Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is The Open Offer is fair and reasonable.

fair and reasonable Summary of reasons for recommendation (IDC may also The Acquirer has an e-pharmacy platform on which they also offer Doctor Consultations and EMR. The acquirer has dream to provide complete Health-Tech solution by adding and invite attention to any other place, e.g. Company's website, where its detailed recommendations along with written strengthening the Diagnostic piece. There would be substantial synchronization of interests. advice of the Independent Adviser, if any, can be seen by the The current trends and post-Covid trends in healthcare in particular, says Health-Tech has shareholder) bright future. However, the shareholders are advised to use their own discretion considering all the various aspects of the Open Offer and take appropriate decision. Disclosure of Voting Pattern of the IDC Meeting. The recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC. Two Independent directors have domain experience and two independent directors have Details of Independent Advisors, if any

The Acquirer holds multiple pieces as separate identities, and it might take time to align all Any other matter(s) to be highlighted stakeholders to deliver equitable and effective solutions. Statement by the IDC -- "To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Thyrocare Technologies Limited

the TC under the Takeover Code."

Gopalkrishna Shivaram Hegde Chairman - Committee of Independent Directors

Place: Mumbai Date: 3 August 2021 दे दिया है और जुलाई, 2011 से कथित पार्टनरशिप फर्म के लाभों एवं दायित्वों से मेर कोई लेना-देना नहीं है। देनदारों/लेनदारों/सरकारी प्राधिकरणों आदि सहित कोई भी संबंधित पक्ष जो कथित फर्म के साथ को मौद्रिक/अन्य हित रखता है वह इसके वर्तमान पार्टनर से फर्म के उपर्युक्त पते पर सम्पर्क कर सकता है। तिथि: 04.08.2021 आनन्द दुग्गल

इंस्ट बिल्डटेक लिमिटेड सीआईएन: L74999DL1984PLC018610 पंजीकृत कार्यालय : डी-3/2, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 वेबसाइट : www.ebl.co.in

ई-मेल : secretarial@ebl.co.in,

contact@ebl.co.in सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी वे अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा कार्यसूची की अन्य मदों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए मैसर्स ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक बहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2021 को 11:30 बजे पर्वाहन इसके पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी। कथित सूचना तथा कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम www.ebl.co.in, www.bseindia.com

पर उपलब्ध होगी। कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड मधुसूदन चोखानी स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 04.08.2021 निदेशक सरज डण्डस्ट्रीज लि

CIN: L26943HP1992PLC016791 ई—मेल— secretarial@surajindustries.org वेबसाइट-www.surajindustries.org पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 2, फेज 3, संसारपुर टेरेस जिला. कांगडा, हिमाचल प्रदेश-173212 कॉरपोरेट कार्यालयः एफ-32 / ३. प्रथम तल, ओखला, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020 संपर्क सूत्र: 01970-256414

एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि सेवी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 33 और 47 के अनुपालन में **मैसर्स** सरज इण्डस्टीज लि, के निदेशक मण्डल की वैठक गुरूबार, 12 अगस्त, 2021 को दोपहर 04.00 बजे एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला आद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली -110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जुन, 2021 को कम्पनी के समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कुपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट www.surajindustries.org अथावा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com

भानुमति रामाचन्द्रण स्थान: नई दिल्ली तिथि: 04.08.2021 (कम्पनी सचिव)

Chandigarh

कृते सूरज इण्डस्ट्रीज लि.

पर जाएं।

www.readwhere.com